

कपास नई खोज



भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक संवाद-पत्र

देखें: www.cicr.org.in

अंक: 3 खंड: 12 दिसंबर 14-20, 2014

अफ्रीका के लिए यात्रा

डॉ.के.आर.क्रांति, निदेशक, के.क.अ.सं., और डॉ.एम.वी.वेणुगोपालन, प्रधान वैज्ञानिक (कृषि विज्ञान) ने भारत-अफ्रीका गोष्ठी (टाप) सम्मेलन - द्वितीय के तहत कपास तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टाप) के कार्यान्वयन के लिए दि. 13 दिसम्बर से दि. 23, दिसंबर, 2014 तक मलावी और युगांडा का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य टाप के अधीन " देश में आधुनिक कपास उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम " शीर्षक से प्रशिक्षण देने हेतु किया गया था। मलावी में प्रशिक्षण कार्यशाला माचिंगा कृषि विकास प्रभाग, तिवोंडे में आयोजित किया गया और 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। युगांडा में प्रशिक्षण कार्यक्रम कपास विकास संगठन के कार्यालय, कंपाला, युगांडा में दिसम्बर 18 और 19, 2014 को आयोजित किया गया। डॉ. क्रांति ने जी.एम फसलों और बीटी कपास के कीट और रोग की पहचान और प्रबंधन, प्रौद्योगिकी पर अपने ज्ञान और अनुभव को साझा। डॉ. वेणुगोपालन, ने एक 'आधुनिक कपास उत्पादन प्रौद्योगिकी' पर प्रस्तुति की एवं पहलुओं जैसे कृषि संरक्षण, पोषक तत्वों की कमी निदान, मृदा परीक्षण, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और अच्छी कृषि प्रथाओं पर विवरण दिया।

प्रशिक्षणार्थी कृषि अधिकारियों का के.क.अ.सं., में दौरा

वानामति के दौर पर फाउंडेशन प्रशिक्षण ले रहे महाराष्ट्र कृषि सेवा- द्वितीय श्रेणी के कृषि अधिकारियों, ने दि.19, दिसम्बर 19, 2014 को के.क.अ.सं., नागपुर का दौरा किया। तीस (30) अधिकारियों के एक समूह ने के.क.अ.सं. के प्रयोगात्मक खेतों और प्रयोगशालाओं का दौरा किया और संस्थान के विभिन्न प्रभागों के तहत किए गए अनुसंधान गतिविधियों पर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया। डॉ. एच.बी. संतोष ने फसल सुधार प्रभाग की अनुसंधान गतिविधियों के बारे में बताया, जबकि फसलों के उत्पादन और फसल संरक्षण प्रभागों के शोध कार्य क्रमशः डॉ. झा.एच.मेश्रम और डॉ. वी.एस. नगरारे, द्वारा सविस्तार किया गया, एवं श्री. जाँय दास ने जैव प्रौद्योगिकी अनुभाग के अनुसंधान गतिविधियों के बारे में दर्शकों को सूचित किया।



निर्मित एवं प्रकाशित: डॉ. के.आर.क्रांति, निदेशक, के.क.अ.सं., नागपुर

प्रमुख संपादक: डॉ. नदिनी गोक्टे-नाखडेकर

संपादकों: डॉ. जे.एन्नि शीबा, डॉ. विश्लेष नगरारे, डॉ. जे.अमुदा एवं डॉ. एम.शरवणन

जनसंचार माध्यम समर्थन एवं रूपांकन: डॉ. एम.सबेष एवं श्री. एस.सत्यकुमार

हिन्दी अनुवाद: श्रीमति. के.सुभ्रमी एवं डॉ. अ.हि.प्रकाश

निर्मित समर्थन: श्री. संजय कुशवाहा

प्रमाण: कपास नई खोज अंक-3, खंड-12, 2014, भा.कृ.अनु.प. - केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर

प्रकाशन टिप्पणी: यह समाचार पत्र आनलाईन <http://www.cicr.org.in/News Letter.html> में उपलब्ध है।

कपास नई खोज एक खुला उपयोग कपास समाचार पत्र है।

कपास नई खोज-के.क.अ.सं., समाचार पत्र केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, नागपुर द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक संवाद-पत्र.
कार्यालय: पांजरी, एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लॉन्ट के पास, वर्धा रोड, नागपुर- 441 108.

दूरभाष: 07103-275536 फैक्स: 07103-275529; E-mail: cicrnagpur@gmail.com

